



“जबूलून का परिवार समूह भी यहूदा के परिवार समूह से ठीक बाद में अपना डेरा लगाएगा। जबूलून के लोगों नेता हेलेन का पुत्र एलीआब है।

מֵאַוֹתַי	וְאַרְבַּע	אַלְף	וַחֲמִשִּׁים	שִׁבְעָה	וּפְקָדָיו	וַצְבָּאוֹ	8
सौ	और-चार	हजार	और-पचास	सात	और-उसकी-गिनती	और-उसकी-सेना	
<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H7651</a>			

इस समूह में सत्तावन हजार चार सौ पुरुष थे।

כָּל-	הַפְּקָדָיִם	לְמַחֲנֵה	יְהוּדָה	מֵאַתַּת	אַלְף	וּשְׁמֹנִים	אַלְף	וְשִׁשָּׁתַּי	אַלְפִים	וְאַרְבַּע-	9
सब-	गिने-गए	के-छावनी	यहूदा-की	सौ	हजार	और-अस्सी	हजार	और-छह-	हजार	और-चार-	
<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8084</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0702</a>	
מֵאַוֹתַי	לְצִבְאוֹתָם	רִאשֹׁנָה	יָצְאוּ:	ס	ק						
सौ	उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	पहले	कूच-करेंगे								
<a href="#">H3967</a>		<a href="#">H7223</a>	<a href="#">H5265</a>								

“यहूदा के डेरे में एक लाख छियासी हजार चार सौ पुरुष थे। ये सभी अपने अलग अलग परिवार समूह में बंटे हुए हैं। यहूदा पहला समूह होगा जो उस समय आगे चलेगा जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेंगे।

הַגִּזְלִים	מַחֲנֵה	רְאוּבֵן	הַיְמָנָה	לְצִבְאוֹתָם	וְנָשִׂיא	לְבָנֵי	רְאוּבֵן	10
झण्डा	छावनी-का	रूबेन-का	दक्षिण-की-ओर	उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	और-प्रधान	के-पुत्रों-के-लिए	रूबेन-के	
<a href="#">H1714</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H8486</a>				<a href="#">H7205</a>	
אֱלִיָּצוּר	בֶּן-	שְׂדֵיאוּר:						
एलीसूर	पुत्र-	शदेऊर-का						
<a href="#">H0468</a>		<a href="#">H7707</a>						

“रूबेन का झण्डा पवित्र तम्बू के दक्षिण में होगा। हर एक समूह अपने झण्डे के पास आपना डेरा लगाएगा। रूबेन के लोगों का नेता शदेऊर का पुत्र एलीसूर है।

וַצְבָּאוֹ	וּפְקָדָיו	שִׁשָּׁה	וְאַרְבָּעִים	אַלְף	וַחֲמִשָּׁשׁ	מֵאַוֹתַי:	11
और-उसकी-सेना	और-उसकी-गिनती	छह	और-चालीस	हजार	और-पाँच	सौ	
		<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3967</a>	

इस समूह में छियालीस हजार पाँच सौ पुरुष थे।

וְיַחְזִיקֵם	עִלְיוֹ	מִטָּה	שְׁמֵעוֹן	וְנָשִׂיא	לְבָנֵי	שְׁמֵעוֹן	שְׁלֹמִיאֵל	בֶּן-	12
और-डेरा-डालने-वाला	उसके-पास	गोत्र	शिमोन-का	और-प्रधान	के-पुत्रों-के-लिए	शिमोन-के	शलूमीएल	पुत्र-	
<a href="#">H2583</a>		<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H8095</a>			<a href="#">H8095</a>	<a href="#">H8017</a>		
צוּרֵי-שָׂרָי:									
सूरीशहै-का									
<a href="#">H6701</a>									

“शिमोन का परिवार समूह रूबेन के परिवार समूह के ठीक बाद अपना डेरा लगाएगा। शिमोन के लोगों का नेता सूरीशहै का पुत्र शलूमीएल है।

וַצְבָּאוֹ	וּפְקָדֵיהֶם	תְּשֻׁעָה	וַחֲמִשִּׁים	אַלְף	וּשְׁלֹשׁ	מֵאַוֹתַי:	13
और-उसकी-सेना	और-उनकी-गिनती	नौ	और-पचास	हजार	और-तीन	सौ	
		<a href="#">H8672</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H3967</a>	

इस समूह में उनसठ हजार तीन सौ पुरुष थे।

וּמִטָּה	גָּד	וְנָשִׂיא	לְבָנֵי	גָּד	אֱלִיָּסָפ	בֶּן-	רְעוּאֵל:	14
और-गोत्र	गाद-का	और-प्रधान	के-पुत्रों-के-लिए	गाद-के	एल्यासाप	पुत्र-	रूएल-का	
<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H1410</a>			<a href="#">H1410</a>	<a href="#">H0460</a>		<a href="#">H7467</a>	

“गाद का परिवार समूह भी रूबेन के लोगों के ठीक बाद अपना डेरा लगाएगा। गाद के लोगों का नेता रूएल का पुत्र एल्यासाप है।

וַצְבָּאוֹ	וּפְקָדֵיהֶם	חֲמִשָּׁה	וְאַרְבָּעִים	אַלְף	וּשֵׁשׁ	מֵאַוֹתַי	וַחֲמִשִּׁים:	15
और-उसकी-सेना	और-उनकी-गिनती	पाँच	और-चालीस	हजार	और-छह	सौ	और-पचास	
		<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8337</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H2572</a>	

इस समूह में पैंतालीस हजार चार सौ पचास पुरुष थे।

מֵאוֹת	וְאַרְבַּע-	אֶלֶף	וּחֲמִשִּׁים	וְאַחַד	אֶלֶף	מֵאוֹת	רְאוּבֵן	לְמַחֲנֵה	הַפְּקָדִים	כָּל-	16
सौ	और-चार-	हजार	और-पचास	और-एक	हजार	सौ	रूबेन-की	के-छावनी	गिने-गए	सब-	
<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H7205</a>	<a href="#">H4264</a>		<a href="#">H3605</a>	

וּ	יָסְעוּ:	וּשְׁנַיִם	לְצַבְאֹתָם	וּחֲמִשִּׁים
॥	कूच-करेंगे	और-दूसरे	उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	और-पचास
	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H8145</a>		<a href="#">H2572</a>

“रूबेन के डेरे में सभी समूहों के एक लाख इक्यावन हजार चार सौ पचास पुरुष थे। रूबेन का डेरा दूसरा समूह हगा जो उस समय चलेगा जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेंगे।

כִּן	יַחְנוּ	כַּאֲשֶׁר	הַמַּחֲנֵה	בְּתוֹךְ	הַלְוִיִּם	מַחֲנֵה	מוֹעֵד	אֶחָד-	וְיָסֹעַ	17
वैसे	डेरा-डालते-हैं	जैसा	छावनियों-के	के-बीच	लेवियों-की	छावनी	मिलाप-का	तम्बू-	और-कूच-करेगा	
	<a href="#">H2583</a>		<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H3881</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H4150</a>	<a href="#">H0168</a>	<a href="#">H5265</a>	

וּ	לְדִגְלֵיהֶם:	יָדוּ	עַל-	אִישׁ	יִסְעוּ
॥	उनके-झण्डों-के-अनुसार	अपने-स्थान	पर-	हर-पुरुष	कूच-करेंगे
	<a href="#">H1714</a>	<a href="#">H3027</a>		<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5265</a>

“जब लोग यात्रा करेंगे तो लेवी का डेरा ठीक उसके बाद चलेगा। मिलापवाला तम्बू दूसरे अन्य डेरों के बीच उनके साथ रहेगा। लोग अपने डेरे उसी क्रम में लगाएंगे जिस क्रम में वे चलेंगे। हर एक व्यक्ति अपने परिवार के झण्डे के साथ रहेगा।

אֶפְרַיִם	לְבָנָיו	וְנָשָׂא	יָמָה	לְצַבְאֹתָם	אֶפְרַיִם	מַחֲנֵה	הַזֶּה	18
एप्रैम-के	के-पुत्रों-के-लिए	और-प्रधान	पश्चिम-की-ओर	उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	एप्रैम-का	छावनी-का	झण्डा	
<a href="#">H0669</a>			<a href="#">H3220</a>		<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H1714</a>	

עַמִּיהוּד:	בֶּן-	אֱלִישָׁמַע
अम्मीहूद-का	पुत्र-	एलीशामा
<a href="#">H5989</a>		<a href="#">H0476</a>

“एप्रैम का झण्डा पश्चिम की ओर रहेगा। एप्रैम के परिवार के समूह वहीं डेरा लगाएंगे। एप्रैम के लोगों का नेता अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा है।

מֵאוֹת:	וּחֲמִשָּׁ	אֶלֶף	אַרְבָּעִים	וּפְקָדֵיהֶם	וְצַבָּאוֹ	19
सौ	और-पाँच	हजार	चालीस	और-उनकी-गिनती	और-उसकी-सेना	
<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0705</a>			

इस समूह में चालीस हजार पाँच सौ पुरुष थे।

פְּדָסוּר:	בֶּן-	גַּמְלִיֵּאל	מְנַשֶּׁה	לְבָנָיו	וְנָשָׂא	מְנַשֶּׁה	וְעֹלָיו	20
पदासूर-का	पुत्र-	गमलीएल	मनश्शे-के	के-पुत्रों-के-लिए	और-प्रधान	मनश्शे-का	और-उसके-पास	
<a href="#">H6301</a>		<a href="#">H1583</a>	<a href="#">H4519</a>			<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H4294</a>	

“मनश्शे का परिवार समूह एप्रैम के परिवार के ठीक बाद अपना डेरा लगाएगा। मनश्शे के लोगों का नेता पदासूर का पुत्र गमलीएल है।

וּמֵאוֹת:	אֶלֶף	וּשְׁלֹשִׁים	שְׁנַיִם	וּפְקָדֵיהֶם	וְצַבָּאוֹ	21
और-दो-सौ	हजार	और-तीस	दो	और-उनकी-गिनती	और-उसकी-सेना	
<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H8147</a>			

इस समूह में बत्तीस हजार दो सौ पुरुष थे।

גִּדְעֹנִי:	בֶּן-	אֲבִידָן	בִּנְיָמִן	לְבָנָיו	וְנָשָׂא	בִּנְיָמִן	וּמְטָה	22
गिदोनी-का	पुत्र-	अबीदान	बिन्यामीन-के	के-पुत्रों-के-लिए	और-प्रधान	बिन्यामीन-का	और-गोत्र	
<a href="#">H1441</a>		<a href="#">H0027</a>	<a href="#">H1144</a>			<a href="#">H1144</a>	<a href="#">H4294</a>	

“बिन्यामीन का परिवार समूह भी एप्रैम के परिवार के ठीक बाद अपन डेरा लगाएगा। बिन्यामीन के लोगों का नेता गिदोनी के पुत्र अबीदान है।

מֵאוֹת:	וְאַרְבַּע	אֶלֶף	וּשְׁלֹשִׁים	חַמֵּשָׁה	וּפְקָדֵיהֶם	וְצַבָּאוֹ	23
सौ	और-चार	हजार	और-तीस	पाँच	और-उनकी-गिनती	और-उसकी-सेना	
<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7970</a>	<a href="#">H2568</a>			

इस समूह में पैंतीस हजार चार सौ पुरुष थे।

לְצַבְאוֹתָם उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	וּמֵאָה और-सौ	אַלְפִים हजार	וּשְׁמֹנֶת- और-आठ-	אַלְף हजार	מֵאָה सौ	אַפְרַיִם एफ़्रैम-की	לְמַחֲנֵה के-छावनी	הַפְּקָדִים गिने-गए	כָּל- सब-	24
	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H8083</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H3967</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H4264</a>		<a href="#">H3605</a>	

וּשְׁלִישִׁים  
और-तीसरे

יִסְעוּ:  
कूच-करेंगे

[H5265](#)

[H7992](#)

“एफ़्रैम के डेरे में एक लाख आठ हजार एक सौ पुरुष थे। यह तीसरा परिवार होगा जो तब चलेगा जब लोग एक स्थान दूसरे स्थान से की यात्रा करेंगे।

אֶחֱיעָזָר अहीएजेर	דָּן दान-के	לְבָנָי के-पुत्रों-के-लिए	וְנָשִׂא और-प्रधान	לְצַבְאוֹתָם उनकी-सेनाओं-के-अनुसार	צָפְנָה उत्तर-की-ओर	דָּן दान-का	מַחֲנֵה छावनी-का	זְרָנְדָא झण्डा	25
<a href="#">H0295</a>	<a href="#">H1835</a>				<a href="#">H6828</a>	<a href="#">H1835</a>	<a href="#">H4264</a>	<a href="#">H1714</a>	

בֶּן-  
पुत्र-

עַמְּשַׁדָּי:  
अम्मीशद्वै-का

[H5996](#)

“दान के डेरे का झण्डा उत्तर की ओर होगा। दान के परिवार का समूह वहीं डेरा लगाएगा। दान के लोगों का नेता अम्मीशद्वै का पुत्र अहीएजेर है।

וּצְבָאוֹ और-उसकी-सेना	וּפְקָדֵיהֶם और-उनकी-गिनती	שְׁנַיִם दो	וְשָׁשִׁים और-साठ	אַלְף हजार	וּשְׁבַע और-सात	מֵאוֹת: सौ	26
		<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H8346</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H7651</a>	<a href="#">H3967</a>	

इस समूह में बासठ हजार सात सौ पुरुष थे।

וְהַחֲנִים और-डेरा-डालने-वाले	עָלָיו उसके-पास	מִטָּה गोत्र	אֲשֶׁר आशेर-का	וְנָשִׂא और-प्रधान	לְבָנָי के-पुत्रों-के-लिए	אֲשֶׁר आशेर-के	פְּגִיעָל पगीएल	בֶּן- पुत्र-	27
		<a href="#">H4294</a>	<a href="#">H0836</a>			<a href="#">H0836</a>	<a href="#">H6295</a>		

עֶכְרָן:  
ओक्रान-का

[H5918](#)

“आशेर का परिवार समूह दान के परिवार समूह के ठीक बाद अपना डेरा लगाएगा। आशेर के लोगों का नेता ओक्रान का पुत्र पगीएल है।

וּצְבָאוֹ और-उसकी-सेना	וּפְקָדֵיהֶם और-उनकी-गिनती	אֶחָד एक	וְאַרְבָּעִים और-चालीस	אַלְף हजार	וַחֲמִשָּׁ और-पाँच	מֵאוֹת: सौ	28
		<a href="#">H0259</a>	<a href="#">H0705</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H2568</a>	<a href="#">H3967</a>	

इस समूह के एकतालीस हजार पाँच सौ पुरुष थे।

וּמִטָּה और-गोत्र	נִפְתָּלִי नफ़्ताली-का	וְנָשִׂא और-प्रधान	לְבָנָי के-पुत्रों-के-लिए	נִפְתָּלִי नफ़्ताली-के	אֶחֱיעָזָר अहीरा	בֶּן- पुत्र-	עֵינָן: एनान-का	29
	<a href="#">H5321</a>			<a href="#">H5321</a>	<a href="#">H0299</a>		<a href="#">H5881</a>	

“नफ़्ताली का परिवार समूह भी दान के परिवार समूह के ठीक बाद अपने डेरे लगाएगा। नफ़्ताली के लोगों का नेता एनान का पुत्र अहीरा है।

וּצְבָאוֹ और-उसकी-सेना	וּפְקָדֵיהֶם और-उनकी-गिनती	שְׁלֹשָׁה तीन	וַחֲמִשָּׁים और-पचास	אַלְף हजार	וְאַרְבַּע और-चार	מֵאוֹת: सौ	30
		<a href="#">H7969</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H0505</a>	<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3967</a>	

इस समूह में तिरपन हजार चार सौ पुरुष थे।

31 כָּל-הַפְּקָדִים לְמַחְנֵה דָן מֵאֹת אֶלֶף וּשְׁבַע־אֶלֶף וַחֲמִשִּׁים וְאַרְבָּע וּשְׁשׁ מֵאוֹת 31  
 सब- गिने-गए के-छावनी दान-की सौ हजार और-सात हजार और-पचास और-छह सौ  
[H3605](#) [H4264](#) [H1835](#) [H3967](#) [H0505](#) [H7651](#) [H2572](#) [H0505](#) [H8337](#) [H3967](#)

לְאַחֲרָנָה יִסְעוּ לְדִלְיָהֶם: פ  
 अंत-में कूच-करेंगे उनके-झण्डों-के-अनुसार 9  
[H0314](#) [H5265](#) [H1714](#)

“दान के डेरे में एक लाख सत्तावन हजार छः सौ पुरुष थे। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेंगे तो यह चलने वाला आखिरी परिवार होगा। ये अपने झण्डे के नीचे अपना डेरा लगाएंगे।”

32 אֶלֶה פְּקוּדֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לְבַיִת אֲבֹתָם כָּל-פְּקוּדֵי הַמַּחֲנֵה  
 ये गिने-गए पुत्र-इस्राएल-के के-घराने उनके-पूर्वजों-के सब- गिने-गए के-छावनियों-के  
[H0428](#) [H3478](#) [H0001](#) [H3605](#) [H4264](#)

לְצַבְּאֹתָם שֵׁשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשָׁת אֲלָפִים וַחֲמִשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים:  
 उनकी-सेनाओं-के-अनुसार छह-सौ हजार और-तीन हजार और-पांच सौ और-पचास  
[H8337](#) [H3967](#) [H0505](#) [H7969](#) [H0505](#) [H2568](#) [H3967](#) [H2572](#)

इस प्रकार ये इस्राएल के लोग थे। वे परिवार के अनुसार गिने गये थे। सभी डेरों में अलग—अलग समूहों के सभी परिवारों के पुरुषों की समूची संख्या थी छः लाख तीन हजार पाँच सौ पचास।

33 וְהָלוּיִם וְלֹא הָתַפְּקוּדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה  
 और-लेवीय नहीं गिने-गए के-बीच के-पुत्रों-के इस्राएल-के जैसा आज़ा-दी यहोवा-ने को-मूसा  
[H3881](#) [H3808](#) [H8432](#) [H3478](#) [H6680](#) [H3068](#) [H0853](#) [H4872](#)

मूसा ने इस्राएल के अन्य लोगों में लेवीवंश के लोगों को नहीं गिना। यह यहोवा का आदेश था।

34 וַיַּעֲשׂוּ וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה כִּן-דָּלָה  
 और-किया और-ने इस्राएल-के के-अनुसार सब-के-जो आज़ा-दी यहोवा-ने को-मूसा वैसे-डाला  
[H3478](#) [H3605](#) [H6680](#) [H3068](#) [H0853](#) [H4872](#) [H2583](#)

לְדִלְיָהֶם וְכֵן נִסְעוּ אִישׁ לְמִשְׁפַּחְתּוֹ עַל-בֵּית אֲבֹתָיו:  
 उनके-झण्डों-के-अनुसार और-वैसे कूच-किया हर-पुरुष उसके-कुलों-के-अनुसार पर-घराने उसके-पूर्वजों-के  
[H1714](#) [H5265](#) [H0376](#) [H4940](#) [H0001](#)

यहोवा ने मूसा को जो कुछ करने को कहा उस सबका पालन इस्राएल के लोगों ने किया। हर एक समूहों ने अपने झण्डों के नीचे अपने डेरे लगाए और हर एक व्यक्ति अपने परिवार और अपने परिवार समूह के साथ रहा।